



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 286]
No. 286]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 21, 2005/फाल्गुन 30, 1926
NEW DELHI, MONDAY, MARCH 21, 2005/PHALGUNA 30, 1926

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मार्च, 2005

का.आ. 357(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में दिनांक 2 सितम्बर, 2004 को प्रकाशित भारत सरकार, गृह मंत्रालय की दिनांक 2 सितम्बर, 2004 की अधिसूचना संख्या का.आ. 978(अ), के आंशिक संशोधन में जिसमें सार्वजनिक महत्व के एक निश्चित मामले, अर्थात् दिनांक 6 दिसम्बर, 1992 को अयोध्या में राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद ढांचे को गिराए जाने की जांच करने के लिए गठित जांच आयोग का कार्यकाल बढ़ाया गया था, यह निर्णय लिया गया है कि उक्त आयोग, अर्थात् लिबरहान अयोध्या जांच आयोग, अपनी रिपोर्ट 30 जून, 2005 को या उससे पहले प्रस्तुत करेगा।

[फा. सं. सी-71013/4/98-अयोध्या]

ए. के. जैन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st March, 2005

S.O. 357(E).—In partial modification of the Notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs No. S.O. 978(E) dated 2nd September, 2004 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 2nd September, 2004 extending the tenure of the Commission of Inquiry, to inquire into a definite matter of public importance, namely, the destruction of Ram Janma Bhoomi-Babri Masjid structure at Ayodhya on the 6th December, 1992, it has been decided that the said Commission, namely, the Liberhan Ayodhya Commission of Inquiry, will submit its report on or before the 30th June, 2005.

[F.No. C-71013/4/98-Ay.]

A. K. JAIN, Jt. Secy.